



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 फाल्गुन, 1939 (श०)

संख्या- 292 राँची, मंगलवार, 20 मार्च, 2018 (ई०)

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

अधिसूचना

14 मार्च 2018

संख्या :- 03 नि०न०-05/2018 रा०नि०आ० : 389 राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड राँची की अधिसूचना संख्या-302 दिनांक- 6 मार्च 2018 द्वारा झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 541(3) एवं धारा 541(4) तथा झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली, 2012 के नियम 26 के तहत नगरपालिका आम एवं उप निर्वाचन, 2018 के निमित्त श्री प्रदीप कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा को गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख) के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में एवं श्री कमलेश्वर नारायण, अनुमण्डल पदाधिकारी, नगर उँटारी को नगर उँटारी नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित किया गया।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) –सह– उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक 32 दिनांक 12 मार्च 2018 द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य निर्वाचन आयोग निम्नांकित पदाधिकारियों को निर्वाची पदाधिकारी के रूप में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचित करता है।

एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना के क्रमांक 01 के कॉलम 05 को निम्न रूप से संशोधित कर पढ़ा जाय :-

क्र० सं०	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	पद का नाम	पूर्व में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम	वर्तमान में पदाभिहित एवं नाम निर्दिष्ट निर्वाची पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम
1	2	3	4	5	6
1	गढ़वा	गढ़वा नगर परिषद (वर्ग-ख)	उपाध्यक्ष	श्री प्रदीप कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा	श्री कमलेश्वर नारायण अनुमण्डल पदाधिकारी, नगर उँटारी
		नगर उँटारी नगर पंचायत	उपाध्यक्ष	श्री कमलेश्वर नारायण अनुमण्डल पदाधिकारी, नगर उँटारी	श्री प्रदीप कुमार, अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा

2. अधिसूचना संख्या 302 दिनांक-06 मार्च 2018 के शेष सभी अंश यथावत् रहेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

ह० /-(अस्पष्ट),
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।
